

01013

**BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME  
(BDP PHILOSOPHY)**

**Term-End Examination**

**December, 2017**

**ELECTIVE COURSE : PHILOSOPHY  
BPY-012 : PHILOSOPHY OF SCIENCE AND  
COSMOLOGY**

*Time : 3 hours*

*Maximum Marks : 100*

- Note :**
- (i) *Answer all five questions.*
  - (ii) *All questions carry equal marks.*
  - (iii) *Answers to the question no. 1 and 2 should be in about 400 words each.*
- 

1. Describe the theory of Multiple Universe and relate it to the Big Bang theory. 20

**OR**

- Describe the structure of our universe. 20

2. What is philosophical cosmology ? Discuss. 20

**OR**

- Explain the significance of myths to the understanding of science and philosophy. 20

- 3.** Answer any two of the following in about 200 words each.
- (a) How is philosophy different from and related to science ? **10**
- (b) Discuss the contribution of Pre-Socratic philosophers to understand the world. **10**
- (c) What is the age of the universe ? How do we calculate it ? **10**
- (d) What is Hubble's constant ? Elaborate. **10**
- 4.** Answer any four of the following in about 150 words each.
- (a) What is the primordial abundance of elements ? **5**
- (b) What do you mean by falsifiability ? **5**
- (c) What is scientific approach ? **5**
- (d) Explain Historicism briefly. **5**
- (e) What is Thomas Kuhn's contribution to philosophy of sciences ? **5**
- (f) What is Toulmin's understanding of scientific theory ? **5**
- 5.** Write short notes on any five of the following in about 100 words each.
- (a) Rationality of science **4**
- (b) Compton effect **4**
- (c) Cosmology **4**
- (d) Astrophysics **4**
- (e) Gravitation **4**
- (f) Dogmatism **4**
- (g) Epicycle **4**
- (h) Experimental science **4**
-

स्नातक उपाधि कार्यक्रम  
( बी.डी.पी. दर्शन शास्त्र )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2017

ऐच्छिक पाठ्यक्रम : दर्शन शास्त्र

बी.पी.वाई.-012 : विज्ञान दर्शन और ब्रह्माण्ड शास्त्र

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(iii) प्रश्न संख्या 1 और 2 में प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए।

1. बहुरूपीय ब्रह्माण्ड (Multiple Universe) के सिद्धांत का वर्णन करें तथा इसे बिग-बैंग सिद्धांत से सम्बंधित करें। 20

अथवा

हमारे ब्रह्माण्ड की संरचना का वर्णन कीजिए। 20

2. दार्शनिक ब्रह्माण्डशास्त्र क्या है ? चर्चा करें। 20

अथवा

विज्ञान और दर्शन को समझने में मिथक के महत्व की व्याख्या कीजिए। 20

- 3.** किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए।
- (a) दर्शन विज्ञान से कैसे भिन्न है और कैसे सम्बंधित है? 10
  - (b) विश्व की समझ के लिए पूर्व सुकरातीय दार्शनिकों के योगदानों पर चर्चा कीजिए। 10
  - (c) ब्रह्माण्ड की आयु क्या है? हम इसकी गणना कैसे करते हैं? 10
  - (d) हब्बल नियतांक क्या है? स्पष्ट करें। 10
- 4.** किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए।
- (a) तत्वों की आद्य प्रचुरता क्या है? 5
  - (b) असत्यापनीयता से आप क्या समझते हैं? 5
  - (c) वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? 5
  - (d) ऐतिहासिकतावाद की संक्षिप्त व्याख्या करें। 5
  - (e) थॉमस कुहन का विज्ञान दर्शन में क्या योगदान है? 5
  - (f) वैज्ञानिक सिद्धान्त की टुलमेन की क्या समझ है? 5
- 5.** किन्हीं पाँच प्रश्नों में प्रत्येक पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- (a) विज्ञान की बौद्धिकता 4
  - (b) काम्पटन प्रभाव 4
  - (c) ब्रह्माण्डशास्त्र 4
  - (d) खगोल भौतिकी 4
  - (e) गुरुत्वाकर्ष 4
  - (f) कटूरवाद (Dogmatism) 4
  - (g) अधिचक्र (Epicycle) 4
  - (h) प्रयोगिक विज्ञान 4
-